

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

शाधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 62] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 1982/साघ 30, 1903
No. 62] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 1982/MAGHA 30, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

प्रावेश

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1982

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का० प्रा० 89(अ)-सं०/ई(सी) ओ, 1977 एम (232):—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण)
विधिनियम 1947 (1947 वा 18) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए
केन्द्रीय सरकार एमद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और आगे संशोधन करने के
लिए निम्नलिखित आदेश की रचना करती है, अर्थात् —

- 1 इस प्रावेश को निर्यात (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1982 की संज्ञा दी
जाए।

2 निर्यात (नियन्त्रण) आदेश 1977 में —

(क) अनुसूची-1 भाग "ख" में क्रम सं० 6(क) के सामने वर्णित गई वर्तमान प्रविष्टि का निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा

"निकुष्ट भैंस (नर तथा मादा दोनों) का मांस जिसमें दिल, जिगर फेफड़े, मगज, जीभ, गर्दे और अन्य अंग भी शामिल है"।

(ख) खुले सामान्य लाइसेंस-3 में क्रम सं० 3 के सामने की वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा —

1	2	3	4
"3. निकुष्ट भैंस (नर तथा मादा दोनों) का मांस जिसमें दिल, जिगर, फेफड़े, मगज, जीभ, गर्दे और अन्य अंग भी शामिल है।"	6(क)	जिस राज्य में मांस प्राप्त होता है उस राज्य के मतावीत पशु चिकित्सा प्राधिकारियों से यह वर्णित हुए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर निर्यात की अनुमति दी जाओगी कि मांस उस निकुष्ट भैंस का है जो भार होने, दूध देने और प्रजनन के लिए नहीं है, बल्कि कि निर्यात मूल्य 7 50 रुपए प्रति किलो ग्राम जहां पर नि शुल्क मूल्य में कम न हों।	

[सं० 1/16/81-ई-1]

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियन्त्रक,
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 19th February, 1982

EXPORT TRADE CONTROL

S.O.89(E) No. E(C)O, 1977/AM(232):—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Third Amendment Order, 1982.
2. In the Exports (CONTROL) Order 1977—
 - (a) In Part 'B' Schedule I, the entry appearing against S.No 6 (a) shall be substituted by the following:—

"Meat of culled Buffalo (both Male and Female) including heart, liver, lungs, brain, tongue, kidneys and other organs."

(b) In O.G.L.3, the existing entry against S.No. 3 shall be substituted by the following:--

1	2	3	4
"3.	Meat of culled Buffalo (both Male and Female) including heart, liver, lungs, brain, tongue, kidneys and other organs.	B.6(a)	Export will be allowed on production of certificate from the designated Veterinary authorities of the State from which the meat emanates that the meat is from culled Buffaloes not used for draught, milch and breeding purposes, provided the export price is not less than Rs. 7.50 per kg. f.o.b."

[File No. 1/16/81-EI]

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports & Exports.

